

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3340

गुरुवार, 31 मार्च, 2022/10 चैत्र, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

प्रसाद योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

3340. श्री महेश पोद्दार:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों में तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान का राष्ट्रीय मिशन (प्रसाद) योजना के तहत कितनी परियोजनाओं को पूरा किया गया है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत दो वर्षों में परियोजनाओं को पूरा करने में औसतन कितना समय लगा है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) पिछले एक वर्ष में इस योजना के अंतर्गत विलंबित परियोजनाओं की लागत में हुई वृद्धि, यदि कोई हो, का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रसाद योजना के अंतर्गत 17 परियोजनाओं का भौतिक निष्पादन पूरा हो गया है, जिसका विवरण अनुबंध में दिया गया है ।

(ख) : लगभग 48 माह ।

(ग) : पिछले एक वर्ष में लंबित परियोजनाओं में निर्धारित लागत से अधिक व्यय के संबंध में आकलन ऐसी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ही किया जा सकता है ।

अनुबंध

प्रसाद योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में 31.03.2022 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 3340 के भाग (क) के उत्तर में विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूर्ण की गई परियोजनाओं की सूची

वर्ष	सं.	राज्य	परियोजना का नाम
2018-19	1	पंजाब	अमृतसर में करुणा सागर वाल्मीकि स्थल का विकास,
2019-20	2	उत्तर प्रदेश	वृंदावन, जिला मथुरा में पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण
	3	आंध्र प्रदेश	अमरावती टाउन, गुंटूर जिला का विकास
	4	तमिलनाडु	वेल्लांकनी का विकास
2020-21	5	उत्तराखण्ड	केदारनाथ का एकीकृत विकास
	6	गुजरात	सोमनाथ में तीर्थयात्रा सुविधाओं का विकास
	7	तमिलनाडु	कांचीपुरम का विकास
	8	बिहार	पटना साहिब का विकास
	9	उत्तर प्रदेश	मथुरा-वृंदावन का मेगा टूरिस्ट सर्किट (फेज-11) के रूप में विकास
	10	उत्तर प्रदेश	वाराणसी फेज -1 का विकास
	11	गुजरात	द्वारका का विकास
	12	गुजरात	सोमनाथ में सैरगाह का विकास
	13	केरल	गुरुवायुर मंदिर में विकास
	14	असम	गुवाहाटी और उसके आसपास कामाख्या मंदिर और तीर्थ स्थल का विकास
2021-22	15	बिहार	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में मूलभूत सुविधाओं का विकास
	16	आंध्र प्रदेश	प्रसाद योजना के तहत आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम मंदिर का विकास
	17	मध्य प्रदेश	ओंकारेश्वर का विकास
